



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 25]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 23—जून 29, 2007 (आषाढ़ 2, 1929)

No. 25]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23—JUNE 29, 2007 (ASADHA 2, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	651	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	575	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित और होते हैं)...
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	965	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	2613
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	467
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....
		9895
		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....
		493
		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक .....
		*

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	651	than the Administration of Union Territories).....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	575	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	965	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	2613
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	467
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	9895
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	493
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....	*

\*Folio not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2007

सं. 1/2/2006-सीटी II---निम्नलिखित सदस्य को 26.06.2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित कपास सलाहकार बोर्ड में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है :-

श्री योगेश छावड़ा  
एच.पी.-2, मौर्या इनक्लेव,  
पीतमपुरा,  
दिल्ली-110034

सदस्य

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 26.06.2006 की अधिसूचना सं. 1/2/2006-सी.टी.- II ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित हो गई है।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुदृप्त राय  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2007

सं. एफ. 9-43/2006-यू. 3A--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद् द्वारा स्वामी रामा विद्यापीठ, स्वामी रामा नगर, पी.ओ. डोइवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड, जिसमें केवल मेडिकल कालेज है, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ अपने मेडिकल कालेज (हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) स्वयं को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढ़वाल), उत्तराखण्ड से असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है।

(2) यह घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 7 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

(3) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वामी रामा विद्यापीठ और इसकी किसी संघटक इकाई को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 20-28/2006-यू.3 (ए)--इस मंत्रालय के दिनांक 26.4.1996 तथा 28.7.2000 की अधिसूचना सं. एफ. 9-15/95-यू.3 तथा दिनांक 19.8.2004 की सं.एफ. 9-7/2004-यू.3 दिनांक 25.2.2005 की सं.एफ. 9-16/2004-यू.3 तथा दिनांक 14.2.2005 की सं.एफ. 20-28/2006-यू. 3 (ए) के अनुसरण में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श पर निम्नलिखित संस्था को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संघटक संस्था के रूप में "भारती विद्यापीठ" सम विश्वविद्यालय, पुणे के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की घोषणा करती है :-

(i) भारतीय विद्यापीठ डेंटल कालेज तथा अस्पताल, संगली

2. घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों पर निर्भर है।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारती विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय या इसकी किसी संघटक संस्था को कोई योजनागत या योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 20-28/2006-यू.3 (ए)--इस मंत्रालय के दिनांक 26.4.1996 तथा 28.7.2000 की अधिसूचना सं. एफ. 9-15/95-यू.3 तथा दिनांक 19.8.2004 की सं.एफ. 9-7/2004-यू.3 दिनांक 25.2.2005 की सं.एफ. 9-16/2004-यू.3 तथा दिनांक 14.2.2007 की सं.एफ. 20-28/2006-यू. 3 (ए) के अनुसरण में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श पर निम्नलिखित संस्था को तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संघटक संस्था के रूप में "भारती विद्यापीठ" सम विश्वविद्यालय, पुणे के क्षेत्राधिकार में शामिल करने की घोषणा करती है :-

(i) भारती विद्यापीठ कालेज ऑफ नर्सिंग, संगली

(i) भारती विद्यापीठ कालेज ऑफ नर्सिंग, नवी मुम्बई

2. घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन की क्रम संख्या 5 में उल्लिखित शर्तों पर निर्भर है।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारती विद्यापीठ, सम विश्वविद्यालय या इसकी किसी संघटक संस्था को कोई योजनागत या योजनेतर अनुदान प्रदान नहीं करेगा।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 5th June 2007

No. 1/2/2006-CT-II.—The following Member is nominated to the Cotton Advisory Board, reconstituted vide Notification of even number dated 26.06.2006 with immediate effect :—

Shri Yogesh Chhabra, Member  
H.P.-2 Maurya Enclave,  
Pitampura,  
Delhi-110034.

2. The Notification No. 1/2/2006-CT-II dated 26.06.2006 regarding reconstitution of Cotton Advisory Board stands modified to the extent stated above.

Ordered that a copy of this Notification be communicated to the concerned.

Ordered also that it may be published in the Gazette of India.

SUDRIPTA ROY  
Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th June 2007

No. F. 9-43/2006-U.3(A).—In exercise of the power conferred by Section 3 of the University Grants Commission act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grant Commission (UGC), hereby declare that Swami Rama Vidyapeeth, Swami Rama Nagar, P.O. Doiwala, Dehradun, Uttarakhand, consisting of Medical college only, shall be a 'Deemed-to-be-University' for the purpose of the aforesaid Act, with effect from the date the Swami Rama Vidyapeeth disaffiliated its Medical College (Himalayan Institute of Medical Sciences) from the affiliating university, viz., Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar (Garhwal), Uttarakhand.

2. This declaration is also subject to further conditions mentioned at Sl. No. 7 of the endorsement of this notification.

3. Government of India or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants to Swami Rama Vidyapeeth or any of its constituent units.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

No. F. 20-28/2006-U.3(A).—In continuation of this Ministry's Notifications No. F. 9-15/95-U.3 dated 26.4.1996 and 28.7.2000, No. F.9-7/2004-U.3 dated 19.8.2004, No. F.9-16/2004-U.3 dated 25.2.2005 and No. F.20-28/2006-U.3 (A) dated 14.2.2007 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby declare that the following institution is included under the ambit of "Bharati Vidyapeeth", Deemed-to-be-University', Pune as its constituent unit for the purpose of the aforesaid Act, with immediate effect :-

(i) Bharati Vidyapeeth's Dental College and Hospital, Sangli;

2. The declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 5 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University or any of its constituent institutions.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

No. F. 20-28/2006-U.3(A).—In continuation of this Ministry's Notifications No. F.9-15/95-U.3 dated 26.4.1996 and 28.7.2000, No. F.9-7/2004-U.3 dated 19.8.2004, No. F.9-16/2004-U.3 dated 25.2.2005 and No. F.20-28/2006-U.3 (A) dated 14.2.2007 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby declare that the following institutions are included under the ambit of "Bharati Vidyapeeth", Deemed-to-be-University', Pune as its constituent units for the purpose of the aforesaid Act, with immediate effect :

(i) Bharati Vidyapeeth's College of Nursing, Sangli,

(ii) Bharati Vidyapeeth's College of Nursing, Navi Mumbai;

2. The declaration is subject to the conditions mentioned at Sl. No. 5 of the endorsement of this notification.

3. The Ministry of Human Resource Development or the University Grants Commission will not provide any Plan and Non-Plan grants either to the Bharati Vidyapeeth, Deemed-to-be-University or any of its constituent institutions.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.